

SHASHANK TRADERS LIMITED

CIN: L52110DL1985PLC021076

Regd. Office: 713, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Ph No: 011- 43571041-42, Fax No: 011-43571047

Email id: info@shashankinfo.in, Website: www.shashankinfo.in

Dated: May 31st, 2018

To,

The Manager (Listing)

SHASHANK TRADERS LIMITED

CIN : L52110DL1985PLC021076

Regd. Off. : 713, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001

Phone: 011-43571041-42; Fax: 011-43571047, Website : www.shashankinfo.in,Email : info@shashankinfo.in

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Total Income from operations	5.00	9.68	11.15	24.32
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	2.13	(23.74)	(0.67)	(22.33)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.13	(23.74)	(0.67)	(22.33)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.10	(23.71)	(0.70)	(22.73)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.10	(23.71)	(0.70)	(22.73)
Equity Share Capital	309.38	309.38	309.38	309.38
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	(7.85)	(7.14)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.07	(0.07)	(0.01)	(0.73)
Basic :	0.07	(0.07)	(0.01)	(0.73)
Diluted:	0.07	(0.07)	(0.01)	(0.73)

NOTE:

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Financial Year and Quarter ended March 31, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange's websites, viz., www.bseindia.com and on the Company's website www.shashankinfo.in.

For and on behalf of the Board of Directors of Shashank Traders Limited

Sd/-

Shatrughan Sahu

Director

DIN: 00343726

Place: New Delhi

Date: 31st May, 2018

SAKSOFT LIMITED

Regd & Corp. Office: S P Infocity, 2nd Floor, Block - A, No. 40, Dr. MGR Salai, Kandanchavadi,

Perungudi, Chennai - 600 096, Phone: +91-44-24543500, CIN: L72200TN1999PLC054429

Email: investorqueries@saksoft.co.in; website: www.saksoft.com

Extract of Statement of Consolidated Audited Financial results for the Quarter and year ended March 31, 2018

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Total Income from Operations (net)	7801.17	7062.14	2856.96	2595.33
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	972.84	632.52	3381.87	2887.81
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	972.84	632.52	3381.87	2887.81
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	754.72	471.74	2440.80	2009.56
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1089.33	(1769.09)	2855.57	(215.15)
Paid-up Equity Share capital (Equity Share of Rs. 10 each)	994.25	1045.50	994.25	1045.50
Reserves excluding Revaluation reserve as per Balance Sheet of the Previous accounting year	-	-	13807.54	11456.52
Earnings Per Share (before extraordinary items) (face Value Rs.10)				
(a) Basic (Rs.)	6.99	3.81	21.98	17.30
(b) Diluted (Rs.)	6.58	3.53	20.70	16.10
Not annualised	Not annualised	Annualised	Annualised	
Earnings Per Share (after extraordinary items) (face Value Rs.10)				
(a) Basic (Rs.)	6.99	3.81	21.98	17.30
(b) Diluted (Rs.)	6.58	3.53	20.70	16.10
Notes: 1. Key Standalone financial information	Not annualised	Not annualised	Annualised	Annualised
Turnover	1774.23	1265.47	6474.31	5332.49
Profit/ (Loss) before tax	137.78	80.61	1199.49	868.69
Profit/ (Loss) after tax	72.85	61.24	910.78	612.78

2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2018, filed with the Stock Exchanges on May 30, 2018 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's Website www.saksoft.com and on the website of the Stock Exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Aditya Krishna

Chairman & Managing Director

Place: Chennai

Date: May 30, 2018

SHIVALIK RASAYAN LTD.

CIN : L24237UR1979PLC005941

Regd. Office: Village Kolupuram, P.O. Chandanwari, Dehradun- 248007

E-mail : sri@vsnl.com, www.shivalikrasayan.in, Phone: 011-28218111, 26418182

Extracts of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2018 (Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended
1	Total Income from operations (net)	1153.56	899.88	4434.48	4145.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	169.14	124.89	637.02	494.45
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	169.14	124.89	637.02	494.45
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	207.86	91.45	613.44	330.03
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	420.50	342.00	420.80	342.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	4134.98	1379.02	4104.98	4104.98
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation)	5.50	2.67	13.60	9.65
	Basic	5.50	2.67	13.60	9.65
	Diluted	5.50	2.67	13.60	9.65

Note:
1. The audited financial statement for the year ended March 31, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th May, 2018.
2. The previous periods figures has been regrouped and reclassified where ever necessary.
3. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the year ended on 31st March, 2018 filed with the Stock exchange pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the year ended on 31st March, 2018 are available on Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.shivalikrasayan.in).

Place: New Delhi
Date: 29.05.2018

MVL Limited
Plot No. 10, Sector 10, Phase 1, Sector 10, Gurgaon, Haryana- 122001
CIN : L58220HAR2007PLC000001
Address of the audited and audited financial results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2018

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	Total Income from Operations	107.10	107.10	107.10	107.10
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	94.70	94.70	94.70	94.70
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.70	94.70	94.70	94.70
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	95.70	95.70	95.70	95.70
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Equity Share Capital	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	(417,987,982)	(421,520,933)		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): Basic and Diluted	0.02	0.02	0.07	0.00

Notes:
1) The above Audited Financial Results for a quarter and two years to 31st March, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2018.
2) The financial statements have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
3) The financial statements have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
4) The financial statements have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
5) The figures for the quarters ended March 31, 2018 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published figures of nine months ended December 31, 2017 which were subject to limited review by the statutory Auditors of the Company.
6) Previous year period figures have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.
7) There were no manufacturing activities in the Company during the period under consideration.

Place: New Delhi
Date: 29.05.2018

GEMSTONE INVESTMENTS LIMITED

</

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage arising out of transactions with companies, associations or individuals advertising in newspapers or publications. It is therefore recommended that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers, or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: शैये नं. 21, सी.ओ.आशियाना रेज़िडेंसी, चौथी घरमवीर मार्केट
 सेवल सिनेमा के निकट, बद्रपुर, नई दिल्ली-110044
 CIN NO: L51395DL1975PLC008005

31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अकेश्वित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. हजारों में)

विवरण	स्टैडएलॉन तथा समेकित				
	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2018	समाप्त विवाही 31 दिसंबर, 2017	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017
अनकेश्वित					
परिचालने से कुल आय (शुद्ध)	23	20	0	73	0
कर के बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ(हानि)	-483	-26	-184	-718	-361
कर के बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-483	-26	-184	-718	-361
इकाई शेर पूँजी	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69
आवश्यक (पूर्व वर्ष के तुलन पर में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आवश्यक को छोड़कर)	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से घट्ट) (रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0

टिप्पणी:

- उपरोक्त विवरण सेवा (सुचीबन तथा अन्य उद्योग अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पार दाखिल की गई 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप शीएसई की वेबसाइट: bseindia.com पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त परिणामों की 28.5.2018 को आवंजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसी दिन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 28.05.2018मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
संचाय सम्बन्धी
निदेशक**इंडिया पावर कारपोरेशन लिमिटेड**

(पहले डीपीएससी लिमिटेड)

CIN : L40105WB1919PLC003263

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं० X-1, 2 एवं 3, ब्लॉक- ईपी, सेवर- V, साल्लेक, कोलकाता- 700091

फोन : + 91 33 6609 4300/08/09/10, फैक्स : + 91 33 2357 2452

ई-मेल : corporate@indiapower.com; वेबसाइट : www.indiapower.com

दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से इविटी शेयरों के असूचितकरण

द्वारा सार्वजनिक सूचना

इंडिया पावर कारपोरेशन लिमिटेड (हाले डीपीएससी लिमिटेड) (इसके बाद "कंपनी" के तौर पर संर्वित) के इविटी शेयरधारकों के एकदृष्टारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (इविटी शेयरों का असूचितकरण) विनियमन, 2009 के नियम 6 व 7 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को आवेदित बैठक में दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (इसके बाद "सीएसई" के तौर पर संर्वित) (स्टॉक कोड : 10014021) से कंपनी के इविटी शेयरों के स्वैच्छिक असूचितकरण का अनुमोदन किया है कंपनी के इविटी शेयरों की सीएसई में ट्रैडिंग नहीं हो पा रही है।

कंपनी के इविटी शेयरों की दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज अंगू इंडिया लिमिटेड, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता जारी रहेगी, जिसका गान्धीजीपी ट्रैडिंग टर्मिनल है।

विस्तृत विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indiapower.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.nseindia.com, www.cse-india.com वा www.mscie.in पर भी उपलब्ध है, जहाँ वर्तमान में कंपनी के इविटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के आवेदनुसार

वास्ते इंडिया पावर कारपोरेशन लिमिटेड

हरता-

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 30 मई, 2018

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ACS No. 15576